

12 जनवरी , 2021 गोरखपुर ।

स्वामी विवेकानंद जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस पर गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक, गोरखनाथ चिकित्सालय में रक्तदान शिविर एव युवाओं को नियमित रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम किया गया।

इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. अवधेश अग्रवाल ने स्वामी विवेकानंद जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा की अदम्य साहसी और विलक्षण पराक्रमी स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को हमेशा शान से जीने की प्रेरणा दी।

युवा दिवस, अर्थात् युवा चरित्र की संक्रांति का शुभ मुहूर्त । युवा दिवस का अर्थ है, युवाओं की सभ्यता के सूर्य को नमन करने का गौरवशाली दिन। इस सूर्य का नाम है -विवेकानंद, जो प्राची में उगा और उसका आलोक पूरे विश्व में फैल गया।

आज स्वामी जी की जयंती पर उनकी कुछ बातें याद आती हैं

"सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी वीभत्स वंशधर धर्माधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज कर चुकी हैं। वे इस धरती को हिंसा से भरती रही हैं व उसको बारम्बार मानवता के खून से नहलाती रही हैं और कई सभ्यताओं का नाश करती हुई पूरे के पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही हैं।"

आध्यात्मिक आलोक से प्रदीप्त, जागृत विवेक के विश्व-विदित प्रतीक स्वामी विवेकानंद के भाषण का यह अंश चिर प्रासंगिक है। अभूतपूर्व विवेक द्वारा अनहद आनंद की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए स्वयं अपनी इन्द्रियों का स्वामी हो जाना ही स्वामी विवेकानंद होना है। विभिन्न चुनौतियों से जूझते इस विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए आज भारतीय युवता में भी विवेक की यहीं पराकाष्ठा अपेक्षित है।

आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर ब्लड बैंक में रक्तदाताओं को जागरूक करने का एक कार्यक्रम किया गया। रक्त की कमी को दूर करने के लिए युवाओं को आगे आये बिना सम्भव नहीं है इसलिए आज युवा दिवस पर युवाओं को संकल्प लेना होगा कि रक्त की कमी से किसी की प्राण नहीं जायेगी, आज इस अवसर पर रक्त दान करने वाले युवा हैं विकास राय, शमशेर अहमद, योगेन्द्र यादव, प्रवीण सिंह, इत्यादि ये सभी रक्तदाता अनुकरणीय एवं वंदनीय हैं।

सभी रक्तदाताओं को ब्लड बैंक द्वारा सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, की चैन, कॉफी मग आदि दिया गया। वैश्विक महामारी कोविड को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस, हैंड सैनिटाइजेशन तथा मास्क इत्यादि के साथ रक्तदाताओं का चिकित्सीय परिक्षण, हीमोग्लोबिन, बी.पी. पल्स, ब्लड ग्रुप इत्यादि जाँच की गई।

